

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड							
ऊर्जा निधि 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली							
दिनांक 31.12.2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए एकल वित्तीय परिणाम का विवरण							
							(करोड़ रु. में)
क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष
		31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
	परिचालनों से राजस्व						
(i)	ब्याज आय	9,327.18	9,193.91	8,144.03	27,270.10	23,665.16	31,950.42
(ii)	लाभांश आय	644.07	6.60	25.41	650.67	26.65	1,289.52
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	112.66	30.49	41.22	151.81	118.71	122.96
I.	परिचालनों से कुल राजस्व	10,083.91	9,231.00	8,210.66	28,072.58	23,810.52	33,362.90
II.	अन्य आय	1.87	0.95	0.96	19.57	7.96	8.16
III.	कुल आय (I+II)	10,085.78	9,231.95	8,211.62	28,092.15	23,818.48	33,371.06
	व्यय						
(i)	वित्तीय लागतें	5,885.11	5,829.42	5,497.92	17,390.71	16,302.87	21,853.19
(ii)	निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि/(लाभ)	(145.52)	(428.07)	343.78	(340.95)	881.39	2,633.42
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	2.19	3.27	2.58	8.44	6.66	10.76
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)	76.10	304.80	(55.17)	495.43	(262.55)	(699.05)
(v)	वित्तीय लिखत पर क्षति	1,397.21	953.17	(53.35)	2,703.42	558.52	991.22
(vi)	कार्मिक हितलाभ व्यय	52.19	48.07	46.75	150.81	155.85	193.82
(vii)	मूल्यहास, परिशोधन एवं क्षति	3.16	2.40	2.46	7.50	6.20	9.10
(viii)	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	6.85	5.28	8.32	217.19	44.60	97.15
(ix)	अन्य व्यय	16.90	18.06	22.88	46.11	60.21	88.91
IV.	कुल व्यय	7,294.19	6,736.40	5,816.17	20,678.66	17,753.75	25,178.52
V.	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)	2,791.59	2,495.55	2,395.45	7,413.49	6,064.73	8,192.54
VI.	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-
VII.	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)	2,791.59	2,495.55	2,395.45	7,413.49	6,064.73	-
	कर व्यय:						
	(1) वर्तमान कर:						
	वर्तमान वर्ष	805.60	598.28	461.57	1,841.08	1,130.84	1,406.73
	पूर्ववर्ती वर्ष	-	-	-	43.52	-	17.75
	(2) आस्थगित कर	(346.80)	(187.78)	253.76	(588.51)	713.75	1,112.92
VIII.	कुल कर व्यय	458.80	410.50	715.33	1,296.09	1,844.59	2,537.40
IX.	जारी परिचलनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)	2,332.79	2,085.05	1,680.12	6,117.40	4,220.14	5,655.14
X.	बंद परिचलनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	-	-	-	-	-	-
XI.	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (जारी एवं बंद परिचलनों से) (IX+X)	2,332.79	2,085.05	1,680.12	6,117.40	4,220.14	5,655.14
XII.	अन्य व्यापक आय						
(क)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	(1.27)	(1.28)	(3.17)	(3.82)	(2.72)	(5.09)
	- इक्विटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	127.47	(38.18)	56.49	95.49	(74.65)	(287.11)
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ						

	या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	0.27	0.26	0.26	0.79	(0.06)	0.08
	उप कुल (क)	126.47	(39.20)	53.58	92.46	(77.43)	(292.12)
(ख)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा						
	-नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	29.70	26.57	33.15	(28.25)	20.20	(46.74)
	-हैजिंग रिसर्व की लागत	(20.53)	(22.33)	-	(36.39)	-	-
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा						
	- नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	(7.48)	(6.68)	(8.35)	7.11	(12.62)	4.23
	-हैजिंग रिसर्व की लागत	5.17	5.62	-	9.16	-	-
	उप कुल (ख)	6.86	3.18	24.80	(48.37)	7.58	(42.51)
	अन्य व्यापक आय (क+ख)	133.33	(36.02)	78.38	44.09	(69.85)	(334.63)
XIII.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI+XII)	2,466.12	2,049.03	1,758.50	6,161.49	4,150.29	5,320.51
XIV.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08
XV.	अन्य इक्विटी (31 मार्च के अंकेक्षित तुलन-पत्र के अनुसार)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	42,524.05
XVI.	मूल एवं तनुकृत प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)*:						
	(1) जारी परिचालनों के लिए (रुपए)	8.84	7.90	6.36	23.17	15.98	21.42
	(2) बंद परिचालनों के लिए (रुपए)	-	-	-	-	-	-
	(3) जारी एवं बंद परिचालनों के लिए (रुपए)	8.84	7.90	6.36	23.17	15.98	21.42
	<i>* तिमाही एवं नौ माह के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं हैं।</i>						
	एकल वित्तीय परिणाम के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें।						

एकल वित्तीय परिणाम हेतु टिप्पणी:

1	कंपनी के उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की गई है और इसके बाद दिनांक 11.02.2021 को आयोजित अपनी संगत बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। ये सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन हैं।			
2	अनंकेक्षित एकल वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक ('इंड एस')-34 'अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।			
3	इंड एस 109 के अनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों और उनपर क्षति हानि भत्ता (प्रतिबद्धताओं को शामिल करते हुए) का ब्यौरा निम्नानुसार है			
		(करोड़ रुपए में)		
	क्र.सं.	विवरण	31.12.2020 तक	31.03.2020 तक
	क)	क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण	21,345.87	27,871.70
	ख)	अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता	12,959.44	14,748.46
	ग)	क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)	60.71%	52.92%
4	विवेकपूर्ण तौर पर, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय केवल तभी मान्य है जब वह प्राप्त होती है और/या अर्जन आधार पर जब प्रत्याशित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।			
5	विश्वभर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप से वित्तीय बाजारों में बेहद अशांति छाई हुई है। कंपनी द्वारा अनुकूल रीति से व्यवसाय परिचालनों की निरंतरता के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु स्थिति पर नजर रखी गई है। कंपनी के व्यावसायिक परिचालनों पर कोविड-19 का प्रभाव अनुलग्नक-क में संलग्न है।			
6	दिनांक 31.12.2020 तक कंपनी द्वारा जारी किए गए और बकाया सभी प्रतिभूत बॉण्ड के लिए, निर्दिष्ट अचल संपत्तियों और/या कंपनी की प्राप्तियों पर प्रभार पर मोर्टगेज के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।			
7	इंड एस 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट्स" की अपेक्षानुसार बिजनेस/भौगोलिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग के संदर्भ में, कंपनी के परिचालनों में केवल एक ही बिजनेस सेगमेंट शामिल है - विद्युत क्षेत्र संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। अतः इंड एस 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट-योग्य सेगमेंट नहीं है।			
8	पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनःसमूहित/क्रमबद्ध किया गया है, ताकि उनकी तुलना की जा सके।			
<p>स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 11.02.2021</p>		<p>आर.एस. ढिल्लों अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन- 00278074</p>		

कंपनी पर कोविड-19 का प्रभाव

लॉकडाउन अवधि के बाद, आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं। विद्युत की मांग में बढ़ोतरी ने आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी देखी है जिससे वाणिज्यिक और औद्योगिक मांग बढ़ी है, जो कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित थी।

अपने कोविड-19 पैकेज की घोषणा के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के माध्यम से राज्य सरकार गारंटीकृत ऋणों के रूप में राज्य डिस्कॉमों को लिक्विडिटी इंजेक्शन की भी घोषणा की है। कंपनी ने पात्र डिस्कॉमों को लिक्विडिटी पैकेज की इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31.01.2021 तक 59,067 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की।

कंपनी ने ऋण के स्रोतों की विविधता तक पहुंच के कारण अपनी चलनिधि स्थिति पर कोई मुख्य प्रभाव नहीं देखा है। कंपनी अपनी निधियन जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह तैयार है। कंपनी के पास पर्याप्त लिक्विडिटी एवं विभिन्न बैंकों से पर्याप्त संख्या में अनाहरित लाइन ऑफ क्रेडिट हैं। पीएफसी की उच्च ऋण योग्यता और ऋणदाताओं के साथ सुस्थापित संबंध को ध्यान में रखते हुए, यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से निधियां जुटा सकता है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रबंधन का मानना है कि अपने व्यवसाय के परिचालन को जारी रखने, अपनी वित्तीय स्थिति को बनाए रखने और निरंतर आगे बढ़ने की अपनी क्षमता का आकलन करने में इस प्रकोप का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, कंपनी पर इस महामारी का प्रभाव, अन्य बातों के साथ, कोविड-19 की अवधि और गंभीरता से संबंधित भविष्य के विकास और विद्युत क्षेत्र पर और एनबीएफसी पर इसके प्रभाव को रोकने के लिए सरकार एवं विनियामक निकायों द्वारा कोई अन्य कार्रवाई पर निर्भर रहना जारी रखेगा। कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर प्रभाव के कारण होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड							
ऊर्जा निधि 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली वेबसाइट							
दिनांक 31.12.2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए समेकित वित्तीय परिणाम का विवरण							
							(करोड़ रु. में)
क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष
		31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.03.2020
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
	परिचालनों से राजस्व						
(i)	ब्याज आय	18,226.84	18,034.82	15,678.68	53,117.37	45,584.14	61,628.35
(ii)	लाभंश आय	20.37	12.29	20.94	32.66	37.44	105.65
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	138.33	61.95	53.26	214.73	147.67	161.91
(iv)	अन्य परिचालनगत आय	49.34	49.23	119.69	142.46	227.46	293.53
I.	परिचालनों से कुल राजस्व	18,434.88	18,158.29	15,872.57	53,507.22	45,996.71	62,189.44
II.	अन्य आय	6.84	13.12	5.47	38.15	24.00	85.92
III.	कुल आय (I+II)	18,441.72	18,171.41	15,878.04	53,545.37	46,020.71	62,275.36
	व्यय						
(i)	वित्तीय लागतें	11,330.12	11,240.39	10,264.20	33,439.36	30,354.03	40,844.65
(ii)	निवल अंतरण/ट्रांजेक्शन विनिमय हानि/(लाभ)	(168.07)	(692.14)	696.80	(223.98)	1,906.54	4,991.32
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	2.52	5.00	6.69	17.36	21.61	36.20
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि/(लाभ)	(44.16)	408.85	(162.32)	167.51	(354.67)	(673.20)
(v)	वित्तीय लिखत पर क्षति	2,127.74	1,749.20	28.26	4,431.61	921.45	1,910.83
(vi)	प्रदान की गई सेवाओं की लागत	35.64	15.27	22.37	69.16	53.79	85.18
(vii)	कार्मिक हितलाभ व्यय	102.60	92.65	94.48	283.93	312.13	399.72
(viii)	मूल्यहास, परिशोधन एवं क्षति	6.58	5.89	6.12	18.04	16.83	24.43
(ix)	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	29.30	17.47	39.53	327.58	127.47	356.44
(x)	अन्य व्यय	36.25	44.64	54.24	126.35	162.72	228.55
IV.	कुल व्यय	13,458.52	12,887.22	11,050.37	38,656.92	33,521.90	48,204.12
V.	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)	4,983.20	5,284.19	4,827.67	14,888.45	12,498.81	14,071.24
VI.	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-
VII.	संयुक्त उद्यम एवं एसोसिएट्स में लाभ/(हानि) का शेयर	(12.83)	4.76	6.56	(3.22)	17.98	21.43
VIII.	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)+VII	4,970.37	5,288.95	4,834.23	14,885.23	12,516.79	14,092.67
	कर व्यय:						
	(1) वर्तमान कर:						
	वर्तमान वर्ष	1,491.10	1,388.47	933.18	3,917.51	2,435.23	3,004.98
	पूर्ववर्ती वर्ष	(0.01)	-	53.87	177.24	64.17	83.02
	(2) आस्थगित कर	(483.90)	(389.26)	460.46	(1,019.67)	1,233.84	1,527.42
IX.	कुल कर व्यय	1,007.19	999.21	1,447.51	3,075.08	3,733.24	4,615.42
X.	जारी परिचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VIII-IX)	3,963.18	4,289.74	3,386.72	11,810.15	8,783.55	9,477.25
XI.	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात)	-	-	-	-	-	-
XII.	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (जारी एवं बंद परिचालनों से) (X+XI)	3,963.18	4,289.74	3,386.72	11,810.15	8,783.55	9,477.25

XIII.	अन्य व्यापक आय						
(क)	(i) मर्दे जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	(0.99)	(4.46)	(3.17)	(6.72)	5.24	(7.96)
	- इक्विटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	175.46	(14.61)	112.62	232.00	(114.96)	(416.31)
	- इक्विटी विधि का उपयोग करके संयुक्त उद्यम में लेखाबद्ध अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	0.02	-	(0.08)	0.02	(0.33)	(0.25)
	(ii) मर्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा						
	- परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	0.20	1.06	0.26	1.52	(2.06)	0.80
	- इक्विटी लिखत के उचित मूल्य पर निवल लाभ/(हानि)	0.48	(2.13)	0.40	(4.47)	12.79	12.39
	उप कुल (क)	175.17	(20.14)	110.03	222.35	(99.32)	(411.33)
(ख)	(i) मर्दे जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा						
	-नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	53.54	30.01	33.15	(40.05)	20.20	(348.86)
	-हैजिंग रिसर्व की लागत	133.64	97.79	-	408.44	-	(273.61)
	- इक्विटी विधि का उपयोग करके संयुक्त उद्यम में लेखाबद्ध अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	1.29	-	-	1.29	(3.14)	(3.94)
	(ii) मर्दों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा						
	- नकदी प्रवाह हैज में हैजिंग लिखतों पर लाभ और (हानि) का लागू भाग	(13.48)	(7.54)	(8.35)	10.08	(12.62)	80.27
	-हैजिंग रिसर्व की लागत	(33.64)	(24.61)	-	(102.80)	-	68.86
	उप कुल (ख)	141.35	95.65	24.80	276.96	4.44	(477.28)
	अन्य व्यापक आय (क+ख)	316.52	75.51	134.83	499.31	(94.88)	(888.61)
XIV.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XII+XIII)	4,279.70	4,365.25	3,521.55	12,309.46	8,688.67	8,588.64
	निम्नलिखित के कारण लाभ:						
	- कंपनी के स्वामी	2,893.70	3,249.06	2,597.24	8,825.96	6,652.93	7,122.13
	- गैर-नियंत्रक ब्याज	1,069.48	1,040.68	789.48	2,984.19	2,130.62	2,355.12
		3,963.18	4,289.74	3,386.72	11,810.15	8,783.55	9,477.25
	निम्नलिखित के कारण अन्य व्यापक आय:						
	- कंपनी के स्वामी	229.75	22.69	108.05	283.70	(83.13)	(626.28)
	- गैर-नियंत्रक ब्याज	86.77	52.82	26.78	215.61	(11.75)	(262.33)
		316.52	75.51	134.83	499.31	(94.88)	(888.61)
	निम्नलिखित के कारण कुल व्यापक आय:						

	- कंपनी के स्वामी	3,123.45	3,271.75	2,705.29	9,109.66	6,569.80	6,495.85
	- गैर-नियंत्रक ब्याज	1,156.25	1,093.50	816.26	3,199.80	2,118.87	2,092.79
		4,279.70	4,365.25	3,521.55	12,309.46	8,688.67	8,588.64
XV.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08
XVI.	अन्य इक्विटी (31 मार्च के अंकेक्षित तुलन-पत्र के अनुसार)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	46,759.72
XVII.	मूल एवं तनुकृत प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक अंकित मूल्य 10/- रुपए)*:						
	(1) जारी परिचालनों के लिए (रुपए)	10.96	12.31	9.84	33.43	25.20	26.98
	(2) बंद परिचालनों के लिए (रुपए)	-	-	-	-	-	-
	(3) जारी एवं बंद परिचालनों के लिए (रुपए)	10.96	12.31	9.84	33.43	25.20	26.98
	* तिमाही एवं नौ माह के लिए ईपीएस वार्षिकीकृत नहीं हैं।						
	समेकित वित्तीय परिणाम के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें।						

समेकित वित्तीय परिणाम हेतु टिप्पणी:

1	समूह के अनकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की गई है और इसके बाद दिनांक 11.02.2021 को आयोजित अपनी संगत बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित तथा रिकॉर्ड किया गया है। ये सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन हैं।																
2	समेकित वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक ('इंड एएस')-34 'अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग' और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।																
3	कंपनी के दिनांक 31.12.2020 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए समेकित वित्तीय परिणाम में एक सहायक कंपनी के तिमाही सीमित समीक्षित समेकित वित्तीय परिणाम; एक सहायक कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित समेकित वित्तीय परिणाम; और पंद्रह एसोसिएट्स एवं एक संयुक्त उद्यम एंटीटी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित एकल वित्तीय परिणाम शामिल हैं। इन सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम एंटीटी और एसोसिएट्स के वित्तीय परिणाम को इंड एएस-110 - 'समेकित वित्तीय विवरण', इंड एएस-111 - 'संयुक्त अर्रेंजमेंट्स' और इंड एएस 28 - 'एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार समेकित किया गया है।																
4	<p>इंड एएस 109 के अनुसार कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों और उनपर क्षति हानि भत्ता (प्रतिबद्धताओं को शामिल करते हुए) का ब्यौरा निम्नानुसार है</p> <p style="text-align: right;">(करोड़ रुपए में)</p> <table border="1" data-bbox="212 958 1522 1144"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>31.12.2019 तक</th> <th>31.03.2019 तक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>क)</td> <td>क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण</td> <td>39,566.49</td> <td>49,127.25</td> </tr> <tr> <td>ख)</td> <td>अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता</td> <td>24,233.44</td> <td>25,300.59</td> </tr> <tr> <td>ग)</td> <td>क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)</td> <td>61.25%</td> <td>51.50%</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विवरण	31.12.2019 तक	31.03.2019 तक	क)	क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण	39,566.49	49,127.25	ख)	अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता	24,233.44	25,300.59	ग)	क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)	61.25%	51.50%
क्र.सं.	विवरण	31.12.2019 तक	31.03.2019 तक														
क)	क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण	39,566.49	49,127.25														
ख)	अनुरक्षित क्षति हानि भत्ता	24,233.44	25,300.59														
ग)	क्षति हानि भत्ता कवरेज (%) (ख/क)	61.25%	51.50%														
5	विवेकपूर्ण तौर पर, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋणों पर आय केवल तभी मान्य है जब प्रत्याशित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।																
6	विश्वभर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप से वित्तीय बाजारों में बेहद अशांति छाई हुई है। समूह द्वारा अनुकूल रीति से व्यवसाय परिचालनों की निरंतरता के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु स्थिति पर नजर रखी गई है। समूह के व्यावसायिक परिचालनों पर कोविड-19 का प्रभाव अनुलग्नक-क में संलग्न है।																
7	इंड एएस 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट्स" की अपेक्षानुसार बिजनेस/भौगोलिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग के संदर्भ में, समूह के परिचालनों में केवल एक ही बिजनेस सेगमेंट शामिल है - विद्युत क्षेत्र संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। अतः इंड एएस 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट-योग्य सेगमेंट नहीं है।																
8	पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनःसमूहित/क्रमबद्ध किया गया है, ताकि उनकी तुलना की जा सके।																
<p>स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 11.02.2021</p>	<p style="text-align: right;">आर.एस. ढिल्लों अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन- 00278074</p>																

कंपनी पर कोविड-19 का प्रभाव

लॉकडाउन अवधि के बाद, आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं। विद्युत की मांग में बढ़ोतरी ने आर्थिक गतिविधियों में तेजी देखी है जिससे वाणिज्यिक और औद्योगिक मांग बढ़ी है, जो कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित थी।

अपने कोविड-19 पैकेज की घोषणा के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड के माध्यम से राज्य सरकार गारंटीकृत ऋणों के रूप में राज्य डिस्कॉमों को लिक्विडिटी इंजेक्शन की भी घोषणा की है। कंपनी और इसकी सहायक कंपनी आरईसी लिमिटेड ने पात्र डिस्कॉमों को लिक्विडिटी पैकेज की इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31.01.2021 तक 1,24,999 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की।

समूह ने ऋण के स्रोतों की विविधता तक पहुंच के कारण अपनी चलनिधि स्थिति पर कोई मुख्य प्रभाव नहीं देखा है। समूह अपनी निधियन जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह तैयार है। समूह के पास पर्याप्त लिक्विडिटी एवं विभिन्न बैंकों से पर्याप्त संख्या में अनाहरित लाइन ऑफ क्रेडिट हैं। समूह की उच्च ऋण योग्यता और ऋणदाताओं के साथ सुस्थापित संबंध को ध्यान में रखते हुए, यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से निधियां जुटा सकता है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रबंधन का मानना है कि अपने व्यवसाय के परिचालन को जारी रखने, अपनी वित्तीय स्थिति को बनाए रखने और निरंतर आगे बढ़ने की अपनी क्षमता का आकलन करने में इस प्रकोप का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, समूह पर इस महामारी का प्रभाव, अन्य बातों के साथ, कोविड-19 की अवधि और गंभीरता से संबंधित भविष्य के विकास और विद्युत क्षेत्र पर और एनबीएफसी पर इसके प्रभाव को रोकने के लिए सरकार एवं विनियामक निकायों द्वारा कोई अन्य कार्रवाई पर निर्भर रहना जारी रखेगा। समूह भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर प्रभाव के कारण होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
दिसंबर 31, 2020 तक एकल तुलन-पत्र

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
		(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
	परिसंपत्तियां		
1	वित्तीय परिसंपत्तियां		
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	7,599.71	182.52
(ख)	नकदी एवं नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक में जमा राशि	44.70	16.47
(ग)	डेबिटिव वित्तीय लिखत	1,268.60	1,863.42
(घ)	ऋण	355,907.48	334,112.60
(ङ)	निवेश	16,840.97	16,473.32
(च)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5,418.23	5,339.12
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	387,079.69	357,987.45
2	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां		
(क)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	378.32	651.31
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3,557.69	2,952.12
(ग)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	35.96	31.35
(घ)	अमूर्त परिसंपत्तियां	0.29	0.41
(ङ)	राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां	35.41	35.75
(च)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	218.96	128.87
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	4,226.63	3,799.81
	कुल परिसंपत्तियां (1+2)	391,306.32	361,787.26
	देयताएं एवं इक्विटी		
	देयताएं		
1	वित्तीय देयताएं		
(क)	डेबिटिव वित्तीय लिखत	648.22	599.82
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	236,605.36	221,847.67
(ग)	ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से अन्य)	86,274.97	79,116.06
(घ)	अधीनस्थ देयताएं	9,885.82	9,310.95
(ङ)	अन्य वित्तीय देयताएं	5,473.49	5,375.16
	कुल वित्तीय देयताएं (1)	338,887.86	316,249.66
2	गैर-वित्तीय देयताएं		
(क)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	43.35	0.11
(ख)	प्रावधान	137.76	264.29
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	222.05	109.07
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)	403.16	373.47
	कुल देयताएं (1+2)	339,291.02	316,623.13
3	इक्विटी		
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	2,640.08	2,640.08
(ख)	अन्य इक्विटी	49,375.22	42,524.05
	कुल इक्विटी (3)	52,015.30	45,164.13

	कुल देयताएं एवं इक्विटी (1+2+3)	391,306.32	361,787.26
इसके साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां अन्तरिम वित्तीय विवरण का भाग हैं।			
स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 11.02.2021		आर.एस. ढिल्लों अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन- 00278074	

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
दिसंबर 31, 2020 तक समेकित तुलन-पत्र

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
		(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
	परिसंपत्तियां		
1	वित्तीय परिसंपत्तियां		
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य	9,651.91	1,905.21
(ख)	नकदी एवं नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक में जमा राशि	735.53	2,282.96
(ग)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	3,724.94	5,182.27
(घ)	ट्रेड प्राप्तियां	157.28	137.31
(ङ)	ऋण	701,532.20	646,196.11
(च)	निवेश (इक्विटी विधि के उपयोग हेतु लेखांकन से अन्य)	5,179.10	3,853.72
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	27,597.14	27,462.12
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	748,578.10	687,019.70
2	गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां		
(क)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	618.99	1,138.33
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	5,928.57	5,005.31
(ग)	निवेश संपत्ति	0.01	0.01
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	190.82	186.79
(ङ)	पूँजी कार्य प्रगति पर	405.01	287.62
(च)	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	0.77	0.77
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	7.12	9.23
(ज)	राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां	38.09	42.07
(झ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	316.77	263.94
	इक्विटी विधि के उपयोग हेतु निवेश लेखांकन	539.04	549.90
	कुल गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	8,045.19	7,483.97
3	बिक्री हेतु धारित के रूप में परिसंपत्तियां	31.38	16.98
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	756,654.67	694,520.65
	देयताएं एवं इक्विटी		
	देयताएं		
1	वित्तीय देयताएं		
(क)	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत	1,772.96	1,925.55
(ख)	ट्रेड भुगतान-योग्य		
	(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की कुल बकाया देय राशि	0.04	0.15
	(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से अन्य क्रेडिटर्स की कुल बकाया देय राशि	32.70	53.07
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	462,876.20	441,765.90
(घ)	ऋण (ऋण प्रतिभूतियों से अन्य)	166,520.80	140,666.72
(ङ)	अधीनस्थ देयताएं	16,888.52	14,130.60
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	28,076.76	29,177.04
	कुल वित्तीय देयताएं (1)	676,167.98	627,719.03
2	गैर-वित्तीय देयताएं		

(क)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	206.50	67.40
(ख)	प्रावधान	240.56	374.32
(ग)	अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	334.02	193.85
	कुल गैर-वित्तीय देयताएं (2)	781.08	635.57
	बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं	0.10	0.68
	कुल देयताएं (1+2+3)	676,949.16	628,355.28
3	इक्विटी		
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	2,640.08	2,640.08
(ख)	अन्य इक्विटी	57,134.98	46,759.72
	कंपनी के स्वामियों के निमित्त इक्विटी (क+ख)	59,775.06	49,399.80
(ग)	गैर-नियंत्रक ब्याज	19,930.45	16,765.57
	कुल इक्विटी (4)	79,705.51	66,165.37
	कुल देयताएं एवं इक्विटी (1+2+3+4)	756,654.67	694,520.65

इसके साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां अन्तरिम वित्तीय विवरण का भाग हैं।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.02.2021

आर.एस. ढिल्लों
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन- 00278074